



RP- Sanjiv Goenka
Group of Institutions
Growing Legacies




CESC
LIMITED

NOTICE INVITING E-TENDER

E- tender is invited by Executive Director, Power Marketing, CESC Ltd. on 27.08.2025, having Registered Office at CESC House, Chowringhee Square, Kolkata-700001 for purchase of power on Short Term basis from April, 2026 to June, 2026 as per Ministry of Power (MOP), GOI guidelines dated 30.03.2016 and amendments thereof.

Soft copies of tender documents are available on www.mstcecommerce.com and www.cesc.co.in

The bids are to be submitted electronically through DEEP Portal of MSTC.



Excelleta Tech Private Limited
CIN: U62099PN2023PTC231136
EMAIL ID: info@excelleta.tech

Before the Regional Director Western Region
In the matter of Section 13(4) of Companies Act,
2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies
(Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **EXCELETTA TECH PRIVATE LIMITED**, having its registered office at Flat No. B1-103, Kandres Resi. 1st 25/1/A/2/26/2/2, Pandharpur, Solapur, Maharashtra, India- 413304

...Petitioner

NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 25th day of June, 2025 to enable the Company to change its Registered Office from "State of Maharashtra" to the "State of Delhi". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Western Region, Mumbai at Everest, 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai-400002, Maharashtra within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office address mentioned above.

ExcelletaTech Private Limited
Sd/-
Nishant Jairath
Director
DIN: 01682658
Address: House No. G-902, Caitronia Ambience Island, Gurugram, Haryana-122001, India

PUBLIC NOTICE

My client Mr. Gunvant H. Desai has represented that healongwith his wife Late Mrs. Kanta G. Desai & his daughter Ms. Sheetal G. Desai have jointly purchased Residential Flat No. 403, 4th floor Raheja Regency, Plot No. 106, Cadastral Survey No. 406/6 of Sion Division, Matunga Estate Scheme No. VI, Sion East, Mumbai 400 022/said flat/tyde Agreement for Transfer dated 27th February, 2006 executed by and between M/s. K. Raheja Universal Pvt.Ltd., as Transferor and Raheja Regency Apartment Pvt. Ltd., as Company & Mr. Gunvant H. Desai, Mrs. Kanta G. Desai & Ms. Sheetal G. Desai, as Transferees, which was duly registered vide no. **BBE2-1956-2006**

My above client has informed me that the Agreement for Transfer dated 27th February, 2006 alongwith Registration Receipt is misplaced and the same is not traceable inspite of diligent search and my client has filed a Police Lost Report ID No.: 110852-2025dt 25.08.2025 in Sion Police Station.

Any person having custody of the aforesaid Original Agreement for Transfer dated 27th February, 2006 or any person having any claim against, into or upon the above referred said Flat or any part thereof by way of sale, exchange, inheritance, exchange gift, lien, charge, trust, maintenance or on the basis of the misplaced agreement or otherwise however is required to notify the same in writing along with supporting documentary evidence to the undersigned at his office at Shop No. 109, 1st floor, Crystal Shoppers Paradise, Junction of 24th and 33rd Road, Bandra West, Mumbai 400 050 within 7 days of publication of this Notice failing which the claim and/or objection, if any, shall be considered waived and/or abandoned..

Place: Mumbai
Dated: 27th August, 2025.

MAHESH L. MOTWANI
Advocate

PUBLIC NOTICE

We are investigating the title with regards to Development Rights of M/s. DIVA BEAMTECH, a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, having its registered office at 201, Purshotam Apartment, New Manekal Estate, Ghatkopar (West), Mumbai 400086 in respect of land bearing City Survey No. 479-A, of Village Malad (North) and C.T.S. No. 76-B, of Village: Valnai, Adarsh Lane, Behind Milap Cinema, Goraswadi, Malad (West), Mumbai 400064 owned by Surbhi Co-Operative Housing Society Limited ("said Society") more particularly described in the Schedule hereunder written ("said property").

The said Society, registered under the provisions of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 bearing Registration No. MUM/WP/HSG/TC/14913 dated 03.12.2010 entered into Development Agreement dated 15th December, 2024 registered with Sub Registrar of Assurances at Sr. No. BRL-6/26772/2024 where by appointing M/s. DIVA BEAMTECH as their Developer for redevelopment of said Property. The said society also executed General Power of Attorney dated 15.12.2024 registered with Sub Registrar of Assurances having Serial no BRL-6/26773/2024 with the Developer M/s. Diva Beamtech.

We call upon all concerned persons having any right, title, interest, claim or demand in respect of the said property [whether by way of sale, mortgage, lease, gift, exchange, trust, inheritance, bequest, possession, license, tenancy, lien, charge, maintenance, easement, Lis Pendens, or otherwise howsoever] to make the same known to us in writing with duly notarized documentary proof [at the address mentioned below] within 14 days of this notice. On expiry of 14 days, we will presume that the right, title, interest, claim, or demand is waived and abandoned, and thereafter no such claim shall be entertained and it shall be deemed that the title of said Developer is clear and marketable.

SCHEDULE
(DESCRIPTION OF THE SAID PROPERTY)

All that piece or parcel of land or ground, along with the building bearing City Survey No. 479-A, of Village Malad (North), Taluka Borivali, measuring 953.80 square meters and C.T.S. No. 76-B, of Village: Valnai, Taluka: Borivali, measuring 461.30 square meters, i.e. total admeasuring about 1410.70 square meters or thereabouts within the Registration District and Sub-District of Mumbai Suburban District, now popularly known as "SURBHI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED" situated at Goraswadi, Malad (West), Mumbai 400064 duly assuesed with Municipal P/N Ward of MCGM within the limits of Sub-Registrar at Mumbai Suburban District and bounded as follows that is to say:

On or towards the North : By CTS No. 74 (Part) of Valnai

On or towards the West by : By CTS No. 74 (Part) and 76 (Part) of Village Valnai

On or towards the South by : By 30ft. wide Road

On or towards the East by : By CTS No. 467.476,477,478 of Malad North

Date: 27.08.2025 SD/-
Adv. Mihir Nakrani

M/s. ONEACCESS
Advocates and Attorneys
28, 3rd Floor, New Bansisal Building, Opp. Bombay House, 11, Homi Modi Street, Fort, Mumbai – 400 001
Email : mihir@nakrani.co.in

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large on behalf of my client, RBL Bank Ltd., Airoli Branch, Mumbai, who states that the following documents in original of one of their customers i.e. Stanley D S in respect of Property address 1- S NO. 16/1, NEW S NO.16/1, B2 VANDAVASI KANAKCHIPURAM ROAD, PUNJAYIYARASATHANGAL, KANCHIPURAM -631502. Property address 2- OLD DOOR NO 72C, NEW DOOR NO.72E, T.S. No. 74, 741E BLOCK NO.33, WARD NO.3, ALADIPILLAIYAR KOVIL, KANCHIPURAM-631502 having loan no. 809001890579, have been lost and misplaced in transit and after due and diligent search the said documents are not traceable for which the my client had also filed lost complaint bearing No. 109656-2025 dated 20.08.2025 with Goregaon, Greater Mumbai, Police Station.

1) Settlement Deed -27.02.1975, Doc No. 557/1975

2) Will Deed- 18.08.1999, Doc No. 74/1999

3) Sale Deed -28.03.2007, Doc No. 2581/2007

4) Sale Deed- 05.03.2012, Doc No. 1584/2012

5) Sale Agreement Cancellation Deed- 15.12.2016, Doc No. 6019/2016

6) Sale Deed -16.11.2017, Doc No. 4521/2017

7) Town Survey Field -23.10.2018.

8) Patta dated 22.12.2000 No. 286.

9) Sale Agreement Deed - 11.09.2002 Doc No. 2372/2002

10) Sale Deed - 03.11.2003 Doc No. 258/2003

11) Sale Deed dated -12.12.2006, Doc No. 6928/2006.


12) Sale Agreement Cancellation Deed - 08.12.2014, Doc No. 7873/2014.

13) Sale Deed -08.12.2014, Doc No. 7872/2014.

14) MODT- 26.11.2018, Doc No. 6021/2018.

Any person finds documents are requested to hand over the same to Goregaon Police-station or RBL Branch office at Airoli. Further any person having claim, right, title or interest of any nature whatsoever by way of sale, gift, inheritance, exchange, mortgage, charge, lien, trust, possession, easement, attachment or otherwise for lost of aforesaid documents, howsoever should intimate their objections, if any in writing within 15 (Fifteen) days from the publication of this notice to Adv. Anushka R. Vannmali failing which, the claim of the such persons, if any, will deemed to have been waived and/or abandoned for all intents and purpose.

ADV. ANUSHKA R. VANMALI
ADVOCATE HIGH COURT
A/07, 2nd Floor, Green Queens Apartment, Babhola, Vasai Road (W) 401202
Place: Vasai Date: 27.08.2025



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
A GOVT OF INDIA UNDERTAKING
INCORPORATED IN INDIA

PANCHPAKHADI BRANCH-769 : Sitamauli, Near Aradhana Cinema, Panchpakhadi, Thane – 400602 **Contact:** 9607140769
E-mail: bom769@mahabank.co.in & brmgr769@mahabank.co.in

(Appendix IV) POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1)]

AU31/Sarfaesi-13/4 /2025-26 Date: 25.08.2025

WHEREAS, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice dated **26.06.2025** by speed post and hand delivery, calling upon the borrower, **Mrs Rekha Neeraj Mishra Proprietor of M/s Riishabh Textile** to repay in full the amount of **Rs.1,24,88,149/- (Rupees One Crore Twenty Four Lacs Eighty-eight Thousand One Hundred and Forty Nine Only)** till the date of realization plus charges, cost, expenses till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this **25.08.2025**.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for an amount hereinabove mentioned.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Property

1. Flat No. 302, Shree Shiv Samarth CHSL ,Ramesh Wadi, Kulgaon, Badlapur, West, Taluka Ambernath, Dist- Thane.PIN-421503 And within the jurisdiction of the Sub Registrar SRO Uhasnagar-2, and bounded as under: On or towards the North: Open Plot, On or towards the East: Open Plot, On or towards the West: Internal Road, On or towards the South: Jai Manas Apartment

Date: 25.08.2025 **Chief Manager & Authorized**
Thane **Panchpakhadi, Branch Thane Zone**

PUBLIC NOTICE

ALL INDIA MANUFACTURERS ORGANIZATION
CIN: U91110MH1979NPL021571
(A Company incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013)
Registered Office: Jeevan Sahakar, Sir Phirozshah Mehta Road, Mumbai, Maharashtra, India - 400001

Notice is hereby given to all the esteemed members of the company that the Annual General Meetings (AGMs) for the financial years 2018-19 to 2024-25 will be held consecutively on Monday, the 22nd of September, 2025 at the Registered Office of the Company.

The schedule for the respective AGMs is as follows:

Financial Year	Meeting Time	Agenda to Consider Financial Statements for the year ended
2018-19	10:30 A.M.	31st March 2019
2019-20	11:00 A.M.	31st March 2020
2020-21	12:00 P.M.	31st March 2021
2021-22	01:00 P.M.	31st March 2022
2022-23	01:30 P.M.	31st March 2023
2023-24	02:00 P.M.	31st March 2024
2024-25	03:00 P.M.	31st March 2025

The ordinary business to be transacted at each meeting includes:

- To receive, consider, and adopt the Audited Financial Statements, Directors' Report, and Auditors' Report for the respective financial year.
- To note that the company, being a Section 8 company, has not declared any dividend.
- To note the appointment/re-appointment of Directors, as applicable.
- To re-appoint M/s. Vinish & Company, Chartered Accountants, as the Statutory Auditors for the subsequent financial year.

Members are requested to note:

A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on their behalf. The proxy need not be a member of the company. The instrument of proxy, to be effective, must be deposited at the Registered Office not less than 48 hours before the respective meeting.

Members are requested to notify any change in their address immediately.

Relevant documents referred to in the notices will be available for inspection at the Registered Office on all working days between 11:00 A.M. to 1:00 P.M. until the date of the AGM.

For and on behalf of Board of Directors
ALL INDIA MANUFACTURERS ORGANIZATION
ROSHAN DINESH THAKKER **MANISH CHHAGANAL THAKKAR**
DIN: 07519179 **DIN: 00349913**
(Director) (Director)
705/706, SILVER AVENUE, 301, SWAPNLOK-1, MARVE ROAD,
B.P.S PLAZA, DEVI DAYAL MALAD WEST, MUMBAI,
ROAD, MULUD WEST MAHARASTRA, INDIA 400064
MUMBAI, MAHARASTRA, INDIA 400080

Date: 22/08/2025
Place: Mumbai



Valson
Industries Limited

CIN: L17110MH1983PLC030117
Registered Office: 28, Bldg. No. 6, Mittal Industrial Estate, Sir M. V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. **Website:** www.valsonindia.com; Email: pritesh@valsonindia.com
Tel: 022 4066 1000

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 20, 2025 at 11.30 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses set out in the Notice of AGM which has been emailed to the members.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular dated September 25, 2023 read with MCA Circulars dated May 05, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020 and September 19, 2024 (collectively referred to as the "MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and October 3, 2024 (collectively referred to as the "SEBI Circulars") permitted the holding of AGM through VC / OAVM, without the physical presence of members at a common venue. In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM.

The Company has on Tuesday, August 26, 2025 completed sending emails through National Securities Depository Limited the 41st Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 together with the Notice of 41st AGM to members whose email address are registered with the Depository and RTA.

Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 is available on the Company's website at <https://valsonindia.com/storage/2025/08/2141st-annual-report-2024-25.pdf> and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members holding shares as on the cut-off date, Friday, September 12, 2025 to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. The remote e-voting period begins from Wednesday, September 17, 2025 at 9.00 a.m. and ends on Friday, September 19, 2025 at 5.00 p.m. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The detailed manner of remote e-voting/e-voting during the AGM for members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notice of the AGM.

The requirement to send physical copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of financial year 2024-25 to members holding physical shares and those who have not registered their email addresses is dispensed in accordance with aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars.

In case any member has not registered the email address with the Company/Depository Participant, please follow the below instructions to:

- Register your email address to receive the Notice of the AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 and the login credentials for e-voting;

Members holding shares in Physical form	Please contact the Company at pritesh@valsonindia.com and submit the Folio No., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN/AADHAR for verification and register email address.
Members holding shares in DEMAT form	Please contact your Depository Participant (DP) to register your email address in your DEMAT account, as per the process advised by your DP.

Notice of Book Closure:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 13, 2025 to Saturday, September 20, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGING OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoDP/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special window has been opened from July 7, 2025 till January 6, 2026, only for re-loidgement of transfer deeds, which were originally lodged prior to the deadline of April 1, 2019 but were rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / or otherwise missed the extended timeline of March 31, 2021 for re-lodging their documents for transfer of securities.

Investors who have missed aforesaid timeline for re-lodging their documents for transfer of securities are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MUFG Intime India Private Limited at email id mt.helpdesk@in.mpgms.mufg.com or at their office at C – 101, Embassy 247, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai: 400 083 or the Company at email id pritesh@valsonindia.com for further assistance.

The securities in physical mode that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode, once all the documents are found in order and the process is followed for such transfer-cum-demat requests. The lodger must have a demat account and shall provide its Client Master List along with transfer documents and share certificate while re-lodging the documents for transfer with RTA.

For VALSON INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Mr. Suresh N. Muteja
Managing Director
DIN: 00040644

Place: Mumbai
Date: August 26, 2025



AMC Repo
Safe, Secure & Stable


AMC REPO CLEARING LIMITED
CIN : U65929MH2021PLC359108
Registered Office : Unit No. 503, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz East, Mumbai 400098
Website : www.arcindia.com

NOTICE OF FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING

This is hereby informed that the Fourth Annual General Meeting (AGM) of the Members of AMC REPO CLEARING LIMITED is scheduled to be held on Wednesday, September 24, 2025 at 04:00 p.m. (IST) through Video Conferencing from the registered office of the Company Unit No. 503, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra – 400098 to transact the business as set out in the Notice of AGM only through show of hands. Notice of AGM along with Annual Report has been sent only through electronic mode in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2024 dated September 19, 2024, to the Members whose e-mail ids are registered with the Company. The same shall also be available on the website of the Company at <https://www.arcindia.com/announcements/shareholders>. Electronic copies of all the documents referred to in the Notice of the AGM shall be made available for inspection electronically without any fee by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of Fourth AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to vedantk@arcindia.com.

By order of the Board of Directors
AMC Repo Clearing Limited
Sd/-
Vedant Kamulkar
Company Secretary

Date: August 26, 2025
Place: Mumbai



BENCHMARK COMPUTER SOLUTIONS LIMITED
CIN: L72000MH2002PLC137752
Regd. Off: Unit No. 2, 2nd Floor, Jyoti Wire House, Plot No. 23A Shah Indl. Estate, Veera Desai Road, Andheri (W), Andheri, Mumbai, Maharashtra - 400053
Email: info@benchmarksolution.com Website: www.benchmarksolution.com
NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION RELATED TO E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of Benchmark Computer Solutions Limited (the "Company") will be held on Monday, 29th September, 2025 at 05:00 p.m. (IST) through video conferencing ("VC")/other Audio Video Means ("OAVM") without presence of physical quorum to transact the business as set out in the Notice of AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 22nd AGM and the Annual report for the financial year 2024-25 comprising of the audited financial statement for the financial year 2024-25, along with Board's report and Auditors' report and other documents required to be attached thereto have been sent on 26th August, 2025, electronically, to all members whose email addresses are registered with the Company/ Company's Registrar and Transfer Agent, KFint Technologies Ltd (RTA) / Depository Participants (DPs). These documents also are available on the website of the Company at www.benchmarksolution.com and on the website of Bombay Stock Exchange ("BSE") at www.bseindia.com.

Remote e-voting and e-voting during the AGM:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system provided by KFint Technologies Ltd (RTA) (remote e-voting). The facility of voting will also be made available during the AGM and those members who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., 22nd September, 2025, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

The e-voting period commences on Friday, September 26, 2025 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, September 28, 2025 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Kfintech thereafter.

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Kfint Technologies Ltd. Members may access the platform to attend the AGM through VC at <https://evoting.kfintech.com> by using the remote e-voting credentials. The link for the AGM will be available in the member's login where the "Event" and the "Name of the company" can be selected. The Members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Detailed procedure of remote e-voting / e-voting and attending the AGM through VC/ OAVM has been provided in the notice of AGM. Any person who becomes shareholder of the company after sending the notice of the AGM but before the cut-off date, i.e., 22nd September, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evoting.kfintech.com.


Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 23rd September, 2025 to Monday, 29th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Board of Directors has appointed M/s M K Saraswat & Associates LLP, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting E-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the above website of the www.evoting.kfintech.com. For any grievance/ queries relating to e-voting, members are requested to contact on 022 - 4886 7000 or send a request on e-mail: enward.ris@kfintech.com. and Ms. Ritika Paneri, Company Secretary, Benchmark Computer Solutions Limited at Registered Office: Unit No. 2, 2nd Floor, Jyoti Wire House, Plot No. 23A Shah Indl. Estate, Veera Desai Road, Andheri (W), Andheri, Mumbai, Maharashtra - 400053, Email : info@benchmarksolution.com, Contact No.: +91-022-40822100-103.

For Benchmark Computer Solutions Limited
Sd/-
(Ms. Ritika Deepak Paneri)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 27.08.2025



FINE-LINE CIRCUITS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L72900MH1989PLC131521
Registered Office: 145, SDF-V, SEEPZ-SE2, Andheri (East), Mumbai - 400096.
Tel: 22 2829 0244, Fax: 22 2829 2554
E-mail: fineline@finelineindia.com; **Website:** www.finelineindia.com

NOTICE OF THIRTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the Thirty Fifth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Fine Line Circuits Limited ("the Company") will be held on **Saturday, September 27, 2025 at 11.00 a.m.** (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a Common Venue to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 05, 2020 read with Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 (Collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023, October 07, 2023 and October 03, 2024 ("SEBI Circulars"), permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along-with the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. The Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website www.finelineindia.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting and e-voting system during the AGM is provided in the Notice of the AGM.


If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.

Shareholders holding shares in Physical Mode who have not yet updated their Email addresses with the company are requested to send application, in the prescribed format along with necessary documents, for updating their KYC details as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/SEC/FAF/P/CIR/2023/169 Dated: 12th October,2023 to the company's registrar and transfer agents (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Pvt. Ltd.) C-101/247 Park ,1st Floor LBS Road, Vikhroli (W), Mumbai- 400083.

The Shareholders holding shares in Dematerialized Mode are requested to register / update their Email Address with their respective depository Participant at the earliest.

For FINE-LINE CIRCUITS LIMITED
Sd/-
Abhay Doshi
Managing Director
DIN: 00040644

Place: Mumbai
Date : 27th August, 2025



DEEPAK CHEMTEX LIMITED
CIN: L24110PN1997PLC211935
Registered Office: Aawashi, 28/1A, AP Adgul Aawashi, Lote, Rathnagiri, Maharashtra, India, 415722
Tel: 044-45262779, Email: cs@deepakchemtex.in, Website: www.deepakchemtex.in

NOTICE
28th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

This is to inform that 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Deepak Chemtex Limited** (the Company) will be convened on Monday, September 22, 2025 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to be provided by the National Securities Depository Limited (NSDL) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rules framed thereafter.

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") has vide its circular No. 9/ 2024 dated 19th September, 2024, read with circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 8th December 2021, 28th December 2022 and 25th September 2023, (collectively referred to as "MCA Circulars") allowing, inter-alia, conducting of AGMs/EGMs through (VC / OAVM) facility on or before 30th September 2025. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 ("SEBI Circulars") has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"). In compliance with these Circulars, provisions of the Act and SEBI Listing Regulations, the AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM facility, without the physical presence of Members at a common venue.

The Annual Report 2024-25 of the Company, inter-alia, containing the Notice of the AGM and the Explanatory Statement, Financial Statements and other Statutory Reports will be made available on the website of the Company at www.deepakchemtex.in and on the websites of BSE Limited and National Securities Depository Limited (NSDL) viz. www.bseindia.com and <https://www.evoting.nsdl.com>


Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (the Registrar/Depository Participants (the DPs)). As per the SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of the AGM shall be sent to any Member, however a letter with the details to access the Notice of AGM will be sent to all the members whose email address is not registered with the Company/the Company's Registrar and Transfer Agent.

The Members of the Company holding shares either in physical/demat form and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Registrar and Transfer Agents (the Registrar/Depository Participants (the DPs)) are requested to follow the following process for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in the Notice of the AGM:

- For Physical shareholders** - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share

2 कंपनी समाचार



संक्षेप में

ऐपल 4 सितंबर को पुणे में खोलेगी चौथा स्टोर

आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐपल ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 4 सितंबर को पुणे में नया स्टोर खोलेगी। कंपनी ने कहा कि यह कदम देश में ऐपल के लिए महत्वपूर्ण विस्तार है, जो पुणे में ग्राहकों को ऐपल उत्पादों को जानने और खरीदने का अवसर देगा। साथ ही वे ऐपल की सेवाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर पाएंगे।

भाषा

इटर्नल को 40 करोड़ रु से ज्यादा के कर नोटिस

जोमैटो और ब्लिंकइट ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी इटर्नल को जीएसटी विभाग से तीन नोटिस मिले हैं। इनमें ब्याज और जुर्माना सहित कुल 40 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की गई है। ये नोटिस संयुक्त आयुक्त-4 बंगलूरु से जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए प्राप्त हुए हैं।

भाषा

ओला इलेक्ट्रिक को मिला पीएलआई प्रमाणन

ओला इलेक्ट्रिक के जनरेशन-3 स्कूटर खंड को मोटर वाहन एवं उसके घटकों के क्षेत्र की पीएलआई योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने ओला के सभी सात- एस1 जनरेशन-3 स्कूटर को यह प्रमाणन प्रदान किया है।

भाषा

<div></div> <div>AMC Repo</div> <div>Safe, Secure & Stable</div>
<div>एमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड</div> <div>सीआईएन: U65929MH2021PLC359108</div> <div>पंजीकृत कार्यालय: यूनिट संख्या 503, विंडसर, सीएसटी रोड के पास, कलिना, सांताक्रूज पूर्व, मुंबई 400098</div> <div>वेबसाइट: www.arclindia.com</div> <div>चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना</div>
<p>एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड के सदस्यों की चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को शाम 04:00 बजे (या.मा.स.) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 503, विंडसर, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400098 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को केवल हाथ उठाकर किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, नवीनतम 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, के अनुसार उन सदस्यों को जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है, भेजी गई है। यह कंपनी की वेबसाइट https://www.arclindia.com/announcements/shareholders पर भी उपलब्ध होगा। एजीएम की सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए इस सूचना के प्रसारित होने की तारीख से चौथी एजीएम की तारीख तक उपलब्ध कराई जाएंगी।</p>
<div>निदेशक मंडल के आदेशानुसार</div> <div>एमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड के लिए</div> <div>हस्ताक्षरकर्ता/-</div> <div>वेदांत कामलकर</div> <div>कंपनी सचिव</div>
<div>दिनांक: 26 अगस्त, 2025</div> <div>स्थान: मुंबई</div>

<div></div> <div>SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED</div>
Corporate Identification No. (CIN) – L55101WB1999PLC090672 Registered Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019 Tel. No.: (91 33) 2283 7964 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/PI/ CIR/2025/97 dated July 2, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.
This facility is available for Transfer deeds lodged prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documents/process/or otherwise.
Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) at C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.
The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized form. In case of any queries, shareholders are requested to raise a service request at rnt.helpdesk@in.mpgms.mufg.com or investor@speciality.co.in or logging in to SWAYAM Portal on https://swayam.in.mpgms.mufg.com .
In addition to the above, attention of shareholders is drawn to the "100 days Campaign - Saksham Niveshak", initiative from the Ministry Corporate Affairs, under which the Company continues to assist shareholders in claiming their unpaid/unclaimed dividends.
The Shareholders who have not claimed their dividends can update their KYC details and claim the said dividends. The process to update the KYC along with draft forms are available on the website of the RTA - https://www.in.mpgms.mufg.com →Resources →Downloads →KYC →Formats for KYC.
Mode of dispatch – By post: Physical copies, self-attested and dated to MUFG, C 101, 247 Embassy, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 400083 or; By email: From your registered email ID, with digitally signed documents to: rnt.helpdesk@in.mpgms.mufg.com ; or;
SWAYAM Portal: Upload via MUFG's portal: https://swayam.in.mpgms.mufg.com/ Shareholders are kindly requested to take note of the above instructions and act accordingly.
<div>For Speciality Restaurants Limited</div> <div> <div>Avinash Kinikhar</div> <div>Company Secretary & Legal Head</div> <div>(Membership No. FCS - 8364)</div> </div>
<div>Place: Mumbai</div> <div>Date: August 25, 2025</div>

मारुति सुजूकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा - भारत में ईवी के लिए ...

बैटरी निर्माण का अभाव बाधा

दीपक पटेल

हंसलपुर, 26 अगस्त

मारुति सुजूकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव ने मंगलवार को इसे लेकर चिंता जताई कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विस्तार के संबंध में भारत की सबसे बड़ी बाधा स्थानीय बैटरी निर्माण का अभाव है। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी देश में बैटरी सेल का उत्पादन नहीं कर रही है और एक संयंत्र बनाने में कच्चे माल की कमी के अलावा लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत आती है।

वैश्विक बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र पर चीन का दबदबा है और वह दुनिया की लगभग 85 प्रतिशत बैटरी उत्पादन क्षमता के साथ-साथ लीथियम और कोबाल्ट के प्रसंस्करण पर भी नियंत्रण रखता है। चीन द्वारा अप्रैल से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दुर्लभ मैंगनेट की कमी के बारे में उन्होंने कहा, 'यह समस्या शायद हल हो रही है। मैं सुना है कि दुर्लभ मैंगनेट की समस्या हल हो सकती है, लेकिन यह एक खतरनाक संकेत था।' दुनिया के 90 प्रतिशत से ज्यादा दुर्लभ मैंगनेट का प्रसंस्करण और निर्यात करने वाले चीन ने अप्रैल 2025 में निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर भारत के ऑटोमोबाइल



क्षेत्र में हलचल मचा दी। भारत की अपनी हालिया दो दिवसीय यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कथित तौर पर भारत को आश्वासन दिया कि उनका देश दुर्लभ मैंगनेट, उर्वरकों और सुरंग खोदने वाली मशीनों आदि से जुड़ी प्रमुख निर्यात चिंताओं का समाधान करेगा।

मारुति सुजूकी भारत में ईवी बैटरियों का कब से उत्पादन करने की योजना बना रही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता। अभी हमने इसकी शुरुआत नहीं की है। भारत में कोई भी बैटरी सेल नहीं बना रहा है। आज

इलेक्ट्रिक वाहनों की यही एक समस्या है। लोग बैटरी की पैकेजिंग कर रहे हैं और इसका वास्तविक उत्पादन नहीं हो रहा है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्यात के लिए मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा लॉन्च करने के बाद कंपनी के हंसलपुर संयंत्र में पत्रकारों से बात करते हुए, 'बैटरी संयंत्र लगाना ज्यादा लागत वाला काम है। मुझे बताया गया है कि एक बैटरी संयंत्र लगाने में 20,000 करोड़ रुपये तक का खर्च आता है। इसके अलावा, कच्चे माल की

भी समस्या है।'

भार्गव ने कहा कि किसी चीनी कंपनी के साथ

कैसियो इंडिया की नजर त्योहारी सीजन पर

अश्वरी श्रीवास्तव

नई दिल्ली, 26 अगस्त

जापान की घड़ी विनिर्माता कैसियो की भारतीय शाखा देश में दो अंकों की मध्य स्तर की निरंतर राजस्व

वृद्धि की उम्मीद कर रही है। साथ ही वह अपने स्थानीय विनिर्माण कार्यक्रम को भी रफ्तार दे रही है क्योंकि ग्राहक ज्यादा समझदारी के साथ चयन कर रहे हैं और प्रीमियम उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं।

कैसियो इंडिया के प्रबंध निदेशक ताकुतो किमुरा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हमें देश में जोरदार त्योहारी सीजन की भी उम्मीद है। हमने ओपम तथा रक्षाबंधन अभियान पहले ही शुरू कर दिए हैं। हमारा विज्ञापन खर्च भी हमारी राजस्व वृद्धि के अनुपात में बढ़ रहा है। हमें आने वाले वर्षों में भी 30 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि की उम्मीद

है।' कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्व में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। घड़ी विनिर्माता अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय विनिर्माण पर भी जोर दे रही है और वह आने वाले कुछ महीनों में

स्थानीय रूप से उत्पादित इकाइयों की संख्या को मौजूदा 28 के मुकाबले दोगुना करने की योजना बना रही है।

किमुरा देश में कंपनी को पहली ऑटोमैटिक घड़ी की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। ईएफके-100 श्रृंखला को एडिफिस लेबल के तहत पेश किया गया है। इसकी कीमत 25,995 रुपये है और इसके पांच संस्करण हैं। खुद से चाबी भरने वाली घड़ी, ऑटोमैटिक घड़ियां पहनने वाले के द्वारा कलाई हिलाने पर खुद से चाबी भरने के लिए बिल्ट-इन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है।

फिच ने बड़ाई जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग : फिच रेटिंग्स ने जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रेटिंग 'बीबीबी-' से अपग्रेड कर 'बीबी+' कर दी है।

एक्सेलेरा टेक प्राइवेट लिमिटेड
CIN:U62099NP2023PTC231136 ई-मेल:info@excelea.tech
क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिमी क्षेत्रीय पीके के समक्ष कंपनी अधिविवान, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निष्पत्ता) नियम, 2014 के नियम 30(5)(1) के तहतलेनी जे हवा
एक्सेलेरा टेक प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, प्लॉट नंबर बी 1+103, कैंडस रेंटलिंग, प्रखन, 25/17/23/26/2/2, चण्डीगढ़, जिला सोलानपुर, महाराष्ट्र, भारत - 413304
सूचना
एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'महाराष्ट्र राज्य' से 'दिल्ली राज्य' में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को समक्ष बनाने के लिए 25 जून, 2025 को आयोजित आमसभा/अलग बैठक में निर्दिष्ट विधि/प्रकार के अधिनियम कानूनी के पार्षद सीमा निवास के बदलाव के पुरोक्कण की जाग रहे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केंद्र सरकार के समक्ष आदेन दाखल करने जा रही है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एकलपैठ-21 फॉर्म (www.mca.gov.in) पर निदेशक (नियामक) को जमा कर के या हितैच्छी या क्षेत्रीय का कानून बना सकता है। क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र पीके, एफ़्टई 251 फ़िलिम, 100 मनीन ड्राइव, मुंबई 400002, महाराष्ट्र को अपनी छवि की प्रतिलिपि और विवरण के आधार भित्तु हुए एक हस्ताक्षरित के साथ अपनी आमतोप पंजीकृत डाक से भेजें।
इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दोहरे दिनों के भीतर आदेन कानूनी को उचित अग्र उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पोच कर के प्रति भेजें।
एक्सेलेरा टेक प्राइवेट लिमिटेड
(एस/टी)
निर्वात प्रवक्ता
निदेशक
डायरेक्टर: 01682658
पता: हाउस नंबर जी-902, कैटरीडोरन एबिंस आडलैंड, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, भारत

आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ऐतिहासिक उलाल्खि दर्ज करने की राह पर है। उसका बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। इससे पेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और हरित कारोबारों में उसके आक्रामक विस्तार में निवेशकों के बढ़ते भरोसे का पता चलता है।

मंगलवार को 78वीं सालाना आम बैठक में कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने शेयरधारकों को बताया कि ग्रासिम लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये की अपनी निर्यातों के बाजार वैल्यू छू चुकी है जो 2 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के बेहद करीब है। बाजार पूंजीकरण में यह तेजी रिकॉर्ड राजस्व, विविधीकरण और नए उपक्रमों के कारण संभव हुई है। मंगलवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर लगभग आधा फीसदी की कमजोरी के साथ 2,800 रुपये पर बंद हुआ। बिड़ला ने कहा, 'वित्त वर्ष

मुंबई | बुधवार, 27 अगस्त 2025

बिज़नेस स्टैंडर्ड

परिधान उद्योग चाहे 5 फीसदी जीएसटी

शालीन डिस्जुजा

मुंबई, 26 अगस्त

वस्त्र विनिर्माताओं ने सरकार से सभी मूल्य वर्गों वाले सभी परिधानों को 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाने की मांग की है। वर्तमान में 1,000 रुपये से कम कीमत वाले परिधान 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब के तहत आते हैं तथा 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधान 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब के तहत आते हैं।

क्लोदिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) ने अपने नोट में कहा कि अगर कुछ हिस्से 18 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं, तो यह उद्योग के लिए विनाशकारी होगा। नोट में यह भी कहा गया है कि अगर परिधान उद्योग के लिए जीएसटी स्लैब अधिक रहता है, तो यह बात विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतें बढ़ाए करने के लिए उकसाएगी जिससे वे कम कर वाले स्लैब में आ सकें।

दोनों स्लैब के बीच का अंतर फिलहाल 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत है। यह अंतर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हो जाएगा। इससे बिल कम करके दिखाते, हानिकारक कार्यप्रणाली और ग्रे मार्केट को



उल्टे शुल्क ढांचे की दिक्कतें दूर करने की मांग कर रहा उद्योग

बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विनिर्माता इतनी अधिक दर पर जीएसटी चुकाने के बजाय वहां का रुख करना पसंद कर सकते हैं।

सीएमएआई के चीफ मंटर राहुल मेहता ने प्रस्तावित जीएसटी सुधारों के संबंध में कहा, 'प्रस्तावित जीएसटी सुधार परिधान उद्योग के लिए तभी फायदेमंद होंगे, जब वस्त्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को 5 प्रतिशत की स्लैब के अंतर्गत लाया जाए, जिसकी मांग परिधान उद्योग जीएसटी लागू होने के दिन से ही कर रहा है। इससे कपड़े सस्ते होंगे और उल्टे शुल्क ढांचे की समस्या भी खत्म होगी। इसलिए मैं सरकार से वस्त्रों की पूरी मूल्य श्रृंखला को 5 प्रतिशत की स्लैब के अंतर्गत लाने की सिफारिश और आग्रह कर रहा हूं।

वोडा-आइडिया की सहायक फर्म जुटाएंगी 57 करोड़ डॉलर!

रॉयटर्स

मुंबई, 26 अगस्त

दूरसंचार सेवा परिचालक वोडाफोन-आइडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सितंबर में ऋण बिक्री के जरिये 50 अरब रुपये (\$5.95 करोड़ डॉलर) तक जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि देश की तीसरी सबसे बड़ी वायरलेस सेवा प्रदाता कंपनी की इकाई दो और तीन साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है। इनसे क्रमशः 30 अरब रुपये और 20 अरब रुपये जुटाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि कंपनी इस इश्यू के लिए निजी ऋण निधि लेने पर फोकस करेगी। दो साल और तीन

साल के बॉन्ड पर करीब 12 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की कूपन दर पेश करेगी। एक सूत्र ने कहा, 'इस पैसे का उपयोग विस्तार के लिए नए पूंजीगत व्यय में किया जाएगा।' मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं होने की वजह से सभी सूत्रों ने नाम न छापने का अनुरोध किया। वोडा-आइडिया ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मई में अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व वाली वोडाफोन आइडिया को इक्विटी या ऋण के जरिये 200 अरब रुपये जुटाने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिली थी। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में आय परिणामों के बाद कहा था कि वह सितंबर 2025 तक 17 प्राथमिकता वाले सर्कलों में अपनी 5जी सेवाओं का और ज्यादा विस्तार करने का लक्ष्य बना रही है।

ऐतिहासिक मूल्यांकन के करीब ग्रासिम इंडस्ट्रीज

से बिरला ओपस इस क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और इसमें पुड़ी व्यवसाय को भी शामिल कर दें तो उसकी बाजार हिस्सेदारी दो अंक में पहुंच गई है। कंपनी का लक्ष्य तीन वर्षों के अंदर पेंट से 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करना है जिससे उद्योग की अग्रणी कंपनी एशियन पेंट्स के साथ उसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। बिड़ला ने कहा, 'बिड़ला ओपस वास्तव में डेकेरेटिव पेंट बाजार को नया रूप दे रही है।' पेंट के साथ-साथ निर्माण सामग्री के लिए एक बी2बी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस बिड़ला पिक्ट ने तेजी से 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व वृद्धि हासिल की है। 26 राज्यों के 375 शहरों में उपस्थिति और 40,000 से अधिक कार्यों का वित्त वर्ष 2027 तक वार्षिक राजस्व 8,500 करोड़ रुपये के पार पहुंचने का अनुमान है।

बीएस

मुंबई संस्करण: बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता अरविन ठाकुर खेओरा द्वारा है. दंगत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीपा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरामन सेंटर, बिड़ला संचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित

संपादक : कैलाश नोटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. MAH/HIN/2008/24325 पठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 022-40275300/40275400

सबरिफ़्रेशन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेन्शन बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरामन सेंटर, बिड़ला संचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अभिमार नहीं